



August 6, 2024

BSE Ltd. Corporate Relationship Department Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001	National Stock Exchange of India Ltd Listing Department, Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051
Scrip Code – 530517	Scrip Code – RELAXO

Sub: Newspaper Advertisement for Completion of Dispatch of the Notice of 40th Annual General Meeting (AGM) of the Company

Dear Madam / Sir,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith Newspaper Advertisement regarding completion of dispatch of the Notice of 40th Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday, August 29, 2024 at 10:30 AM through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to the shareholders whose e-mail addresses were registered with the Depository Participants/ Registrar and Share Transfer Agent of the Company published in Financial Express (Delhi – English Edition) and Jansatta (Delhi – Hindi Edition), on August 6, 2024. A copy of AGM notice has been uploaded at the website of the company <https://www.relaxofootwear.com/downloads>

The same is for your information and record please.

Thanking You,

For **Relaxo Footwears Limited,**

Ankit Jain
Company Secretary & Compliance Officer

Encl. as stated above

RELAXO FOOTWEARS LIMITED

Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place,
District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085. Phones: 46800 600, 46800 700
Fax: 46800 692 E-mail: rfl@relaxofootwear.com
CIN L74899DL1984PLC019097



www.relaxofootwear.com

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
Container Corporation of India Ltd.
 (A Govt. of India Undertaking)

TENDER NOTICE (E-Tendering Mode Only)

CNCOR invites tenders in single packet bid system from established, experienced & reliable manufacturers of OEM (Hydrant) or their authorized dealer for the Supply of Various hydraulic cylinders for Hyster RSTs at Container Corporation of India Ltd, ICDD/Tughlakabad, New Delhi-110020, only through e-tendering mode. The bid document can only be downloaded after paying Rs. 1000/- through online from the website (www.tendersnza.com/CCIL).

Bid Reference:	HYSSTER RST/22381204
Name of Supply:	Various hydraulic cylinders
Tendered Quantity:	9 Nos.
Estimated Cost:	₹ 71,08,340.53/-
Delivery Schedule:	Within 168 days from the date of PO
Earnest Money:	₹ 1.42,167/- through e-payment (NEFT/RTGS)
Tender processing fee (Non-refundable):	₹ 3540/- inclusive of all taxes and duties through online payment gateway.
Period of Tender Sale (online):	From 06.08.2024 from 15:00 hrs to 27.08.2024 upto 16:00 hrs.
Date and time of Submission of Bid:	On or before - 27.08.2024 Upto to 17.00 hrs.
Date and time of opening of Bid:	28.08.2024 at 15:30 hrs.
Place of Opening and Communication Address:	GGM Tech/AREA-1, Container Corporation of India Ltd, NSIC, MDPB BUILDING, 2nd FLOOR, OKHLA INDUSTRIAL ESTATE, New Delhi-110020

*Exemption for MSE. CNCOR reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reasons therefor. For complete details login to www.tendersnza.com/CCIL. ED/Area-1

केनरा बैंक Canara Bank
 (A Govt. of India Undertaking)

Demand Notice
 Regional Office 2: Padam Business Park Sec. 12 A, Aavas Vikas, Agra

Notice Under Section 13(2) Of The Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002.

Whereas at the request of you (below mentioned borrowers), Canara Bank has granted Credit Facility against schedule property creating security interest in favour of the Bank. The particulars of property mortgaged by you by way of deposit of title deeds creating security interest in favour of the Bank are mentioned hereunder. As you have failed to discharge the debit due to the Bank, the below mentioned loan account has been classified as Non-performing Asset as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India. As the Demand Notice sent to you by Registered Post calling upon you to discharge the debit due to Bank were returned, unreserved, we are issuing this notice through publication.

Name & Add. of Borrower/ Guarantor/ Mortgagor	Description of Property	Date of Demand Notice	Amount of Demand Notice (₹)
Branch: Kirawali, Agra			
Borrower- Gudiya W/o Suleman, Mr. Suleman S/o Islam	EMT of Land and Building Situated at Gata No 39 Mohalla Bagkala Kasba Kirawali, Agra, Area- 115-38 Sq. Mtr., Property in the name of Gudiya W/o Suleman, Bounded as: East- House of Sakil, West- Other's Property, North- 10' Ft Wide Road, South- Plot of Hazi Sakil	31-07-2024	7,63,308.99 + interest & Other Expenses

If you, the aforementioned persons fails to repay the above mentioned amount due by you with future interest and incidental expenses, costs as stated above in terms of this notice under Section 13 (2) of SARFAESI Act, within 60 days from the date of Publication of this notice, the bank will exercise all or any of the rights detailed under Sub-section (4) of section 13 of SARFAESI Act and other applicable provisions of the said Act. This notice is without prejudice of the Bank's right to initiate such other actions or legal proceedings, as it deem necessary under any other provisions of law.

Dated : 06-08-2024 Place : Agra **Authorized Officer**

RELAXO FOOTWEARS LIMITED
 Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi - 110085. Phones: 91-11-46800600, 46800700. Fax No: 91-11-46800692, E-mail: cs@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com
 CIN No. - L74899DL1984PLC019097

DISPATCH OF THE NOTICE OF 40th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Members of Relaxo Footwears Limited ("Company") are hereby informed that the Company has completed the dispatch of the Notice of 40th Annual General Meeting ("AGM") of the Company. The AGM will be held on Thursday, August 29, 2024 at 10:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business as set out in the Notice of the AGM dated July 31, 2024, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), rules made thereunder, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, read with General Circular No. 09/2023 dated September 29, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 read with SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

In compliance with the aforesaid circulars, the Notice covering the 40th AGM along with Annual Report for the Financial Year 2023-24, inter alia, comprising of Audited Financial Statements of the Company for the year ended March 31, 2024 and the Reports of Board of Directors and Auditors thereon, was sent on August 5, 2024 through electronic mode to the Members whose e-mail addresses were registered with the Depository Participants / KFin Technologies Limited ("KFin"). The Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Company. The requirement of sending physical copies of the AGM Notice has been relaxed by the authorities as per above-mentioned circulars.

The aforesaid documents are available on the website of the Company at www.relaxofootwear.com as well as on the websites of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of RTA at <https://evoting.kfintech.com>. The attendance of Members attending the AGM through their Members login will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. Since the AGM is being conducted through VC/OAVM, the facility for providing proxy is not available.

Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM at <https://emeetings.kfintech.com> by using their e-voting login credentials. The Members can join the AGM 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with aforesaid circulars, the Company is providing its Members with the facility to exercise their right to vote on businesses as set out in Notice of the AGM by electronic means ("remote e-voting"). Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM ("InstaPoll") and Members attending the Meeting will be able to vote at the AGM through InstaPoll. The Company has engaged the services of KFin to provide remote e-voting and InstaPoll facilities for the AGM. The detailed instructions for remote e-voting / InstaPoll are given in the Notice of the AGM, dated July 31, 2024.

Members are requested to note the following:

- The voting rights of the Members (through remote e-voting / InstaPoll) shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on Thursday, August 22, 2024 ("cut-off date"). A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the KFin / Depository Participants as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / InstaPoll at the AGM, as the case may be. A person who is not a Member as on the cut-off date, i.e. Thursday, August 22, 2024, should treat the notice of the AGM for information purpose only. The details of the Remote e-voting are given herein below:

Commencement of Remote e-voting	End of Remote e-voting
From 9:00 a.m. (IST) on Monday, August 26, 2024	Upto 5:00 p.m. (IST) on Wednesday, August 28, 2024

- The e-voting module shall be disabled by KFin for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e. Thursday, August 22, 2024, may obtain the login Id and password by sending a request at evoting@kfintech.com or contact no. 040 - 6716 2222 or call KFin toll free no.1800-3454-001 or to the Company at cs@relaxofootwear.com. The detailed procedure for obtaining user ID and password is also provided in the Notice of the AGM dated July 31, 2024. However, if a Member is already registered with KFin for remote e-voting then he/she can use the existing login Id and password for login.
- The Company is providing e-voting during the AGM i.e. InstaPoll which is integrated part of VC/OAVM platform and no separate login is required for the same. Facility to cast vote through InstaPoll will be made available on Video Conferencing screen and will be activated once the InstaPoll is announced at the AGM.
- A Member can opt for only single mode of voting i.e. through Remote e-voting or InstaPoll. If a Member casts votes by both modes then voting done through Remote e-voting shall prevail and InstaPoll shall be treated as invalid. The Members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.
- Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves by logging on to <https://emeetings.kfintech.com> and clicking on the 'Speaker Registration' option available on the screen after log in. The Speaker Registration will remain open from Wednesday, August 21, 2024 (09:00 a.m. IST) to Saturday, August 24, 2024 (5:00 p.m. IST). Only those Members who will register themselves as speaker will be allowed to express their views or ask questions at the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of questions and number of speakers, depending upon availability of time as appropriate for smooth conduct of the AGM.
- The results of the remote e-voting and InstaPoll at the AGM shall be declared not later than 2 (two) working days from the conclusion of the AGM.

For any grievances/queries/clarifications relating to voting by electronic means and attending AGM through VC/OAVM, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions ("FAQs") for shareholders' and e-voting/VC/OAVM user manual for shareholders', available at the download section of <https://evoting.kfintech.com> and / or Mr. Sankara Gokavaram, Senior Manager- Corporate Registry, Unit: Relaxo Footwears Limited, KFin Technologies Limited, Selenium Building, Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 or at evoting@kfintech.com or contact no. 040 - 6716 2222 or call KFin's toll free No. 1800-3454-001 for any further clarifications. The Members of the Company can also contact Mr. Ankit Jain, Company Secretary & Compliance Officer, Relaxo Footwears Limited, Aggarwal City Square, Plot No.10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085, contact No: 011 - 46800600 and may write an e-mail to cs@relaxofootwear.com

By order of the Board
 For Relaxo Footwears Limited
 Sd/-
 Ankit Jain
 Date: August 5, 2024
 Place: Delhi
 Company Secretary & Compliance Officer

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ Punjab National Bank
 Undelivered Demand Notice

(NOTICE UNDER 13 (2) OF SARFAESI ACT 2002 READ WITH RULE 3 OF SECURITY INTEREST ENFORCEMENT RULES 2002)

I being an Authorised Officer of the Secured Creditor Bank has a reason to believe that all of you the under mentioned notices cannot be served ordinarily as attempted earlier except through this substituted service. As such, all of you the under mentioned notices are hereby informed and called upon through this public DEMAND NOTICE under section 13(2) of the SARFAESI Act with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rule 2002 make payment of the amounts due against each of you, as mentioned below, within 60 days, the bank will proceed U/s 13 (4) of the said Act for taking possession of the secured property/ies/Assets mentioned against account and thereafter to sell the same to realize its dues with further interest till realization along with costs as contemplated under the said Act. **Needless to mentioned here that this notice is addressed to you without prejudice to any other remedy available to bank for recovery of its dues, against you.** The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

S. No.	Name of the Borrower/Guarantor/Mortgagor	Details of Security/Property	Date of Demand Notice & Due Amount
1.	Branch: Vikas Bhawan Borrower/Mortgagor: Sh. Abhishek Gupta S/o Sh. Dharam Kumar Gupta, At: Vill. Mukarpur Khema urf Bukhara, Bijnor (UP)-246701. Co- Borrower/Mortgagor: Smt. Usha Rani W/o Sh. Dharam Singh, At: Vill. Mukarpur Khema urf Bukhara, Bijnor (UP) 246701. Guarantor: Smt. Goldy Verma W/o Sh. Abhishek Gupta, At: Vill. Mukarpur Khema urf Bukhara, Bijnor (UP).	Equitable Mortgage of Residential Property situated at Mohalla Malhi Nagar, Mauja Mukarpur Khema urf Bukhara (inside Chakkar Road outside Nagar Palika), Pargana & Tehsil - Bijnor. (In the name of Smt. Usha Rani w/o Dharam Singh & Abhishek Gupta s/o Sh. Dharam Kumar Gupta), Total Area 70.41 sq. mtr. Recorded in Bahi No. 01, Zild, No 10988 on page no. 61 to 80, Sr. No. 14611, Dated, 26/12/2020, at Sub. Reg. Office Bijnor (UP). Bounded as per sale deed: East- Plot of Narpal Malik, West- House of Pooja, North- Rasta 20 Feet Wide, South- House of Nipendra Singh.	SARFAESI Notice issued u/s 13(2) on 31.07.2024 for Rs. 10,46,072.59 as on 30.09.2024 + further interest w.e.f. 01.07.2024. The Notice was sent to you by Registered post returned undelivered. Date of NPA 30.05.2024
2.	Branch: Bundki Borrower/Mortgagor: Sh. Ateeq Ahmad S/o Sh. Shafiq Ahmad, At: Mohalla Muglushah, Ward No. 25, Najibabad, Bijnor, UP 246763. Co-Borrower: Smt. Shabnam Praveen w/o Sh. Ateeq Ahmad, At: Mohalla Muglushah, Ward No. 25, Najibabad, Bijnor, UP 246763.	Equitable Mortgage of Property situated at Vill. Ibraheempur Raju, Pargana & Tehsil Najibabad, Distt. Bijnor (UP). As per Sale Deed - In the name of Sh. Jahid Ahmad s/o Sh. Rafeeq Ahmad, Smt. Jameela w/o Sh. Jahid Ahmad, Sh. Ateeq Ahmad s/o Sh. Shafiq Ahmad, Total Area 164.76 sq mtr., Recorded in Bahi No. 01, Zild No. 431, Pages No. 133/136, Sr. No. 1225, Dated 20.03.1996, at Sub. Reg. Office Najibabad, Distt. Bijnor (UP). As per court order (case no. 420/2015 Sh. Ateeq Ahmad vs Jahid Ahmad etc.) dated 18.11.2015, above property has been divided among the three owners equally i.e. 1/3rd part (54.92 sq. mtr.). Boundary of the part of Sh. Ateeq Ahmad: East- House of Abdul Salam, West- Govt. Road, North- Remaining 2/3rd part of the property, South- Shops - Mohd Aamir, Mohd Shadab, Mohd Hamraz etc.	SARFAESI Notice issued u/s 13(2) on 30.07.2024 for Rs. 10,18,774.68 as on 08.07.2024 + further interest w.e.f. 01.07.2024. The Notice was sent to you by Registered post returned undelivered. Date of NPA 30.05.2022

Date: 05.08.2024 **Place : Bijnor** **Authorized Officer**



ASREC (India) Limited

Bldg No. 2, Unit No. 201-202A & 200-202B, Gr. Floor, Solitaire Corporate Park, Andheri Ghatkopar Link Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai-400 093.

PUBLIC NOTICE

Whereas, ASREC (India) Limited is an asset reconstruction company duly registered with Reserve Bank of India under section 3 of the SARFAESI Act, 2002 (hereinafter referred to as "ASREC") and is a secured creditor of borrowers who had hypothecated below mentioned vehicles in favour of Volkswagen Finance Pvt. Limited (now ASREC as an assignee by virtue of assignment agreement dated 20.10.2022).

And whereas, the said buses i.e. HP 63 A 5227 & HP 63 A 5230 were taken out / removed from Shree Mahalaxmi Enterprises, Near Krishna Dharam Kanta, Bakoli, New Delhi on or about 28.08.2023 without any permission or authority. And dated 07.02.2024 for KA 01 AK 6162 from Seven Star Parking Yard, Mettu Street, Madra Mettu, Thiruvendkadu, Chennai - 600 077.

Therefore, notice is hereby given to all the concerned and public at large, to not to hire / book / travel or deal with following buses in any manner directly or indirectly,

Make/ Model	Regn No.	Engine No.	Chassis No.
Scania - Metrolink 12 Mtr	HP-63-A-5227	6984087	YS2K4X2HOH1901963
Scania - Metrolink 13.7 Mtr	KA-01-AK-6162	7029179	YS2K6X2RHH1904652
Scania - Metrolink 12 Mtr	HP-63-A-5230	6986450	YS2K4X2HOH1902132

We are taking necessary steps as permissible under law to secure the custody of the said buses and legal proceedings against the offenders.

However, the Public at large is informed and cautioned that ASREC shall not have any responsibility whatsoever in nature, directly or indirectly towards any claim, damage, harm or loss of life to anyone or to the property caused by or due to the said buses in any manner.

If anyone has any information or whereabouts of the said buses, then it is humbly requested to inform us on following contact details immediately.

Name: Dhruvad Acharya Address: ASREC India Ltd, Unit No.212 A Wing, 2nd Floor, Dynasty Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059, Contact no: 7383127311- Email id dhruvadacharya@asrecindia.co.in

Honasa Consumer Limited

CIN: U74999DL2016PLC306016
 Registered office: Unit No - 404, 4th Floor, City Centre, Plot No 05, Sector-12, Dwarka, New Delhi 110075, India
 Website: www.honasa.in; Email: compliance@mamaearth.in; Telephone: 011-44123544

NOTICE OF 8TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

1. NOTICE is hereby given that the 8th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Honasa Consumer Limited ("the Company") will be held on Thursday, August 29, 2024 at 10:30 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Video Means ("OAVM"), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM. In accordance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021, May 05, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 ("MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 05, 2023 and October 07, 2023 ("SEBI Circulars") and applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Company has sent the Notice of AGM along with the Annual Report for financial year 2023-24 on Monday, August 05, 2024, through electronic mode only to those members whose e-mail address are registered with the Company/KFin Technologies Limited, Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") of the Company/Depositories as on Friday, August 02, 2024. The requirement for sending physical copies of the Notice of AGM has been dispensed with vide MCA and SEBI Circulars for General Meetings. Any member who wishes to obtain hard copy of Annual Report, may write to the Company for the same.

2. The Annual Report for financial year 2023-24 of the Company, inter-alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of AGM is available on the website of the Company, Stock Exchanges and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.honasa.in, www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.evotingindia.com respectively.

3. Members holding shares, as on Friday, August 23, 2024, being the cut-off date, may cast their vote electronically on the businesses as set forth in the Notice of AGM through electronic voting system ("remote e-voting") provided by CDSL. All members of the Company are informed that:

- The Ordinary and Special Businesses as set forth in the Notice of AGM will be transacted only through voting by electronic means.
- The remote e-voting will commence on Monday, August 26, 2024 at 9:00 a.m. (IST).
- The remote e-voting shall end on Wednesday, August 28, 2024 at 05:00 p.m. (IST) and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- A person who has acquired shares and became a member of the Company after the sending of notice of AGM by e-mail and holding shares as on cut-off date, may cast vote by following the instructions for e-voting as provided in the Notice convening AGM, which is available on the website of the Company and CDSL. However, if the person is already registered with CDSL/National Securities Depository Limited ("NSDL") for remote e-voting, then the existing user ID and password can be used to cast vote.
- The members may note that: a) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may participate in AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting during AGM; b) The members participating in AGM and who had not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their vote through e-voting during AGM; c) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting, participating in AGM through VC/OAVM facility and e-voting during AGM.
- For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of AGM. In case of any queries relating to e-voting and attending AGM, you can write and e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com. In case of any grievances connected with e-voting for e-voting, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL, at the address: A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400013 or call toll free no. 1800 22 55 33.
- Mr. Shashi Shekhar, Practising Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and e-voting during AGM in fair and transparent manner.
- Members holding shares in physical mode are hereby notified that pursuant to General Circular No.: SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37, dated March 16, 2023, all holders of physical shares can update/register their contact details including the details of e-mail IDs by submitting the requisite Form ISR-1 along with the supporting documents with RTA and Members holding shares in dematerialized form are requested to register/update their e-mail addresses with their relevant Depository Participants.

For Honasa Consumer Limited
 Sd/-
 Dhanraj Dagar
 Date: August 05, 2024
 Place: Gurugram
 Company Secretary & Compliance Officer
 Membership No. A33308

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ Punjab & Sind Bank
 (A Govt. of India Undertaking)
 Where service is a way of life

Branch Office :- IMT, Manesar (Gurgaon) Haryana Ph-Office: 0124-2290023
[Rule : 8(1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the Authorized officer of the Punjab & Sind Bank, IMT, Manesar (Gurgaon) Haryana Branch under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the security interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice U/S 13(2) on the date mentioned below in the table and stated hereunder calling upon to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice. As the borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower (s) / guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with No.8 of the Said Rule/Property described herein below in the table. The borrower (S) / guarantor (S) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the Charge for the amount given herein below together with future interest, costs and other expenses etc. thereon.

Name of Account/ Borrower(S)/ Guarantor(S)	Description of the immovable Property	Amt O/S (as mentioned in the Notice u/s 13(2))	Date of Notice	Date of Possession
Smt. Prashu w/o Sh. Manish Kumar (Borrower) Sh. Manish Kumar s/o Sh. Shiv Dayal (Co-borrower); Smt Shakuntala devi w/o Sh. Shiv dayal (Guarantor); Sh. Manoj Munjal S/o Gobind Ram Munjal (Guarantor); Smt. Radha Sharma w/o Sh. Hukum Chand Sharma (Guarantor)	All the part and parcel of the Immovable property bearing House No.956 D , Gali no 9, hall colony jyoti park Gurugram, Haryana- 122001 area 80 sq Yards measuring 24 feet into 30 foot khasra no 873 belonging to Smt. Prashu w/o Sh. Manish Kumar & Sh Manish Kumar s/o Shiv Dayal and Registered sale Deed No.25287 dated 08.12.2010. Property Bounded As: North- Digar Malik, South: Digar Malik, East : Rasta, West : Digar Malik.	Rs. 17, 43, 753/- (Rupees Seventeen Lakh forty three thousand seven Hundred fifty three) as on 31.01.2024 (inclusive interest charged upto 31.01.2024) together with future interest at the applicable rate on the aforesaid amount w.e.f. 01.02.2023 and incidental /Legal/other expenses , costs, charges etc. thereon.	26.02.2024	30.07.2024
Sh Manoj Kumar s/o Sh. Satbir Singh (Borrower) Sh. Satbir Singh s/o Sh. Atar Singh (Co-borrower) ; Shri Ashish Saini s/o Sh. Narayan Singh (Guarantor); Sh. Sunil Gupta S/o Sh. Baudhah gupta (Guarantor);	All the part and parcel of the Immovable property bearing House No.594/11(old) & 73/13 (New) , measuring 100.5 sqYard, situated in Nehru Line Gurugram, Haryana- 122001 area 100.5 sq Yards measuring 27 feet into 33.5 foot belonging to Sh. Manoj kumar s/o Sh. Satbir Singh Registered sale Deed No.16651 dated 08.10.2015. Property Bounded As: North- others property, South: others property, East: Plot of Suresh Kumar, West: Gali.	Rs.30,70,977.08/- (Rupees Thirty Lakh seventy thousand nine hundred seventy seven & paise eight) as on 31.03.2024 (inclusive interest charged upto 31.03.2024) together with future interest at the applicable rate on the aforesaid amount w.e.f. 01.04.2024 and incidental /Legal/other expenses , costs, charges etc. thereon.	16.04.2024	30.07.2024
Sh. Anil Kumar S/o Sh. Jagdish Parsad (Borrower) Smt. Kiran devi w/o Sh. Anil Kumar (Co-borrower) ; Sh Dinesh Kumar s/o Sh. Jagdish Kumar (Guarantor)	All the part and parcel of the Immovable property bearing House No. 4930 A, khasra no 4335/35 and 3185/36 block D Rajender park Gurugram 122001 Haryana measuring 50 sq yards, belonging to Sh. Anil Kumar S/o Sh jagdish Parsad and Registered Transfer Deed No.16749 dated 16.09.2016. Property Bounded As: North- house of Murti Devi, South: House of wazir, East : Property of Mahavir , West : Rasta 10ft.	Rs 13,25,424.05/- (Rupees Thirteen Lakh Twenty five Thousand Four hundred twenty four & Paise Five Only) as on 30.11.2023 (inclusive interest charged upto 30.11.2023) together with future interest at the applicable rate on the aforesaid amount w.e.f. 01.12.2023 and incidental /Legal/other expenses, costs, charges etc. thereon.	04.12.2023	30.07.2024
Sh. Manoj Mandal S/o KansRaj Mandal (Borrower) (Deceased) (through legal heir A- Smt Uma Devi(Wife), Legal heir B- Posika Devi (Mother), legal heir C- Malika Kumari (Daughter) Minor, through mother Smt Uma Devi Mandal S/o Sh. KansRaj Mandal, Sh. Samar Mandal S/o Sh. KansRaj Mandal and Registered vide No. Sale Deed No. 7012 dated 21.01.2019. Property Bounded As:North- Digar Malik, South: Rasta 12 ft, East: H.No.307 of Joginder Saha West :H.no 309 Rajan Mandal .	All the part and parcel of the Immovable property bearing House No.308, Gali No. 28 B, Rakabka 44 sq.yrds , khewat no/khewat no 225 mustkil no 17, kila no 18/2 (2-18) 23(8-0),18/25/21(0-17) vaka siwana village Dhanwapur, Hall colony Surat Nagar Phase-2, Gurugram, (Haryana) -122001 belonging to Shri Manoj Mandal S/o Shri Kansraj Mandal & Shri. Samar Mandal S/o Shri Kansraj Mandal and Registered vide No. Sale Deed No. 7012 dated 21.01.2019. Property Bounded As:North- Digar Malik, South: Rasta 12 ft, East: H.No.307 of Joginder Saha West :H.no 309 Rajan Mandal .	Rs.27,19,448.42 (Rupees Twenty Seven Lakh nineteen thousand four hundred forty eight & paise forty two only) as on 31.03.2024 (inclusive interest charged upto 31.03.2024) together with future interest at the applicable rate on the aforesaid amount w.e.f. 01.04.2024 and incidental / Legal /other expenses, costs, charges etc. thereon	16.04.2024	30.07.2024
Sh. Sandeep S/o Ravi Kant (Borrower) Sh. Ravi Kant S/o Bhagwan (Co-borrower) and Smt. Meera Devi W/o Sh. Ravi Kant (Guarantor)	All the part and parcel of the Immovable property bearing House No.2330, Property Id 113C 801U/826 comprising kila no. 17/24 Gali No. 28A, Measuring area 60 sq.yrds ,Surat Nagar, Phase -2, Gurugram, (Haryana) -122001 belonging to Shri Ravi Kant S/o Bhagwan Sale Deed No. 1714 dated 17.05.2000. Property Bounded As: North:- Rasta, South:- Back, East:- Others Property West :- House of meena.	Rs.18,04,927.51/- (Rupees Eighteen lakh four thousand nine hundred twenty seven & paise fifty one only) as on 31.03.2024 (inclusive interest charged upto 31.03.2024) together with future interest at the applicable rate on the aforesaid amount w.e.f. 01.04.2024 and incidental / Legal /other expenses, costs, charges etc.	16.04.2024	30.07.2024

Date : 6.08.2024 **PLACE : GURGAON** **Authorized Officer (PUNJAB & SIND BANK)**

यूनियन बैंक Union Bank of India

MAYUR VIHAR BRANCH
 PLOT NO. 4, DAV COMPLEX, DELHI - 110091

ANNEXURE - I
[Rule - 8(1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas The undersigned being the authorised officer of Union Bank of India, Mayur Vihar Branch, Plot no 4, DAV Complex, Delhi - 110091 under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 19.04.2024 calling upon the borrower Mr. Ghanshyam Kumar and Co-applicant Mrs. Soni Choudhary to repay the amount mentioned in the notice being Rs.13,10,221 (Rupees Thirteen Lac Ten Thousand Two Hundred Twenty One only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this 30th day of July 2024.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Union Bank of India for an amount Rs.13,10,221 (Rupees Thirteen Lac Ten Thousand Two Hundred Twenty One only) and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to the borrower to redeem the secured assets.

Description

